

Panch Tulsi drops contain extracts from five different types of Tulsi, which are known for their health benefits. These drops are made from natural ingredients and do not contain any harmful chemicals or additives. The five types of Tulsi in these drops are Shwet Tulsi, Rama Tulsi, Van Tulsi, Shyama Tulsi, and Sri Tulsi. Each type of Tulsi has unique properties that can help support overall health and wellness, including boosting the immune system, managing stress, promoting healthy digestion, and supporting respiratory health.

KEY INGREDIENTS

- Rama Tulsi,
- Shyama Tulsi,
- Van Tulsi,
- Shwet Tulsi
- Sri Tulsi

BENEFITS

- Helps to boost immunity
- gives relieve from cough
- promotes respiratory health
- support digestion

HOW TO USE

Panch Tulsi Drops should be used in the morning, noon and night. Twice and thrice use of Panch Tulsi Drops with water gives better results.

Artesian™ Panch Tulsi



पंच तुलसी ड्रॉप्स में पांच अलग-अलग प्रकार की तुलसी के अर्क होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। ये वृद्ध प्राकृतिक अवयवों से बनी हैं और इनमें कोई हानिकारक रसायन या रोजक नहीं है। इन वृद्धों में तुलसी के पांच प्रकार हैं श्वेत तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, श्यामा तुलसी और श्री तुलसी। प्रत्येक प्रकार की तुलसी में अद्वितीय गुण होते हैं जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सहायता कर सकते हैं, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, तनाव का प्रबंधन करना, स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देना और श्वसन स्वास्थ्य का समर्थन करना शामिल है।

विशेष सामग्री

- वान तुलसी,
- श्वेत तुलसी
- श्री तुलसी
- रमा तुलसी,
- श्यामा तुलसी,

फायदा

- प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है
- खांसी से राहत देता है
- श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है
- पाचन का समर्थन करें

उपयोग विधि

पंच तुलसी ड्रॉप्स का उपयोग सुबह, दोपहर और रात में करना चाहिए। पानी के साथ पंच तुलसी ड्रॉप्स का दो या तीन बार उपयोग बेहतर परिणाम देता है।